



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 चैत्र 1933 (श0)
(सं0 पटना 77) पटना, बुधवार 23 मार्च 2011

सं0 एम0-4-41-2006-2313/वि0(2)

वित्त विभाग

संकल्प

14 मार्च 2011

विषय:—सरकार के विभागों एवं विभागाध्यक्षों के प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का विस्तार।

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय संकल्प सं0-8585, दिनांक 10 अगस्त 2010 द्वारा सभी सरकारी विभागों एवं विभागीय प्रधान सचिव को रुपये 1,00,000 (एक लाख) तक की स्थायी अग्रिम की वित्तीय शक्तियों का विस्तार बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 112 (2) के अंतर्गत किया गया है।

2. वित्त विभाग की आवश्यकताओं पर पुनः विचार करते हुये पूर्व से वित्त विभाग के लिये स्वीकृत स्थायी अग्रिम की राशि रुपये 1,00,000 (एक लाख) की अधिसीमा को रुपये 3,00,000 (तीन लाख) तक विस्तारित किया जाता है।

3. विस्तारित शक्तियों के अनुसार राशि की निकासी के लिये अब महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी जैसा कि वित्त विभागीय संकल्प सं0 12695 दिनांक 10 नवम्बर 2010 में प्रावधानित किया गया है। चूंकि यह स्थायी अग्रिम है इसलिये व्यय का विकलन लोक लेखा-2 शीर्ष-8672-स्थायी अग्रदाय (व्यय) -101 सिविल में होगा।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति संबंधितों तथा महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिहिर कुमार सिंह,
सरकार के सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 77-571+25-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>